

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2025-26	2025	2026		2025-26	2025	2026	
		मार्च	फर.	मार्च		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5	6	7	8
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	197	208	197	197	121	135	121	121
1. बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	558823	458011	484747	558823	548878	451305	476551	548878
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमा राशियाँ	424960	315675	369371	424960	415461	309414	361684	415461
1.2 बैंकों से उधार राशि	84714	112027	78565	84714	84714	111976	78512	84714
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	49150	30310	36811	49150	48703	29916	36355	48703
2. अन्य के प्रति देयताएं	28738739	25053097	27741954	28738739	28166178	24557481	27195276	28166178
2.1 कुल जमा राशियाँ	26782744	23055487	25715492	26782744	26229917	22580601	25190145	26229917
2.1.1 माँग	3753181	2748263	3276458	3753181	3688129	2698049	3221327	3688129
2.1.2 मीयादी	23029564	20307224	22439035	23029564	22541788	19882552	21968818	22541788
2.2 उधार	812871	920568	887695	812871	808208	915248	883014	808208
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	1143123	1077042	1138766	1143123	1128054	1061632	1122118	1128054
3. रिज़र्व बैंक से उधार	254442	311466	124916	254442	254442	311466	124916	254442
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	254442	311466	124916	254442	254442	311466	124916	254442
4. उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	862464	985044	839272	862464	843155	964289	820275	843155
4.1 उपलब्ध नकदी	90788	84399	77554	90788	87403	81874	74471	87403
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	771675	900645	761718	771675	755751	882415	745804	755751
5. बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	596449	432645	527964	596449	474720	348496	425913	474720
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष राशि	369840	273720	344417	369840	296391	215801	276442	296391
5.1.1 चालू खाते में	18379	13239	13080	18379	14126	10619	10221	14126
5.1.2 अन्य खातों में	351461	260481	331337	351461	282265	205182	266221	282265
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	64325	44772	46980	64325	26819	25838	23925	26819
5.3 बैंकों को अग्रिम	47661	43856	45888	47661	43389	39504	41912	43389
5.4 अन्य आस्तियां	114623	70296	90678	114623	108121	67353	83634	108121
6. निवेश	7141121	6850574	7130107	7141121	6961120	6697928	6956053	6961120
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	7129493	6842024	7117057	7129493	6960631	6697298	6955551	6960631
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	11628	8550	13051	11628	489	630	502	489
7. बैंक ऋण	21884470	18708286	21252041	21884470	21359948	18243972	20751207	21359948
7ए खाद्यान्न ऋण	122245	87145	134617	122245	70271	36531	82643	70271
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	21441656	18370704	20833450	21441656	20919326	17909851	20334593	20919326
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	110122	76523	101240	110122	110092	74963	101212	110092
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	294547	222320	280333	294547	293061	221059	279023	293061
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	15023	15357	13408	15023	14793	15122	13190	14793
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	23122	23382	23611	23122	22676	22977	23190	22676

टिप्पणी: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, 15 दिसंबर 2025 से 'पखवाड़े' की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया है। अब यह हर दूसरे शुक्रवार के बजाय महीने की 15 तारीख और महीने के अंतिम कैलेंडर दिन को माना जाएगा।

"रिज़र्व बैंक से ऋण" और "रिज़र्व बैंक के पास शेष" का डेटा 30 मार्च 2026 का है, जबकि 31 मार्च 2026 का डेटा आरबीआई तुलन पत्र के प्रकाशन के बाद मई 2026 के अंत तक मिलेगा।